



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Post Bag No.2, Electronic City Post Office, Bangalore-560500

पोस्ट बैग २, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलोर ५६०५००

Telephone: 18004252229, 18001034455 (Toll Free) or 080-22546500

फ़ोन- १८००४२५२२२९, १८००१०३४४५५ (टॉल फ्री) ०८० - २२५४६५००

Name & Address M.C.MODI EDUCATIONAL TRUST 5-4-187/3 AND 4 SOHAM MANSION M.G ROAD SECUNDERABAD SECUNDERABAD TELANGANA 500003	नाम और पता एम.सी.मोदी एजुकेशन ट्रस्ट ५ ४ १८७/३ न्ह ४ सोहम मॅन्शन एम.जी रोड सिकंदराबाद सिकंदराबाद तेलंगना ५००००३
Date of Communication: संपर्क के तिथि 23-06-2017	Communication Reference No. पत्र संदर्भ संख्या CPC/1617/C15/1633127498

Dear Taxpayer,

Subject: Transfer of your return of income to jurisdictional Assessing officer - Reg.

Reference:

PAN	AY
AAATM5488Q	2016-17
Acknowledgement Number	Date of Uploading
456707481210916	21-09-2016

The Income Tax return as above has been transferred to the Assessing Officer having jurisdiction over your PAN, by the Centralized Processing Center (CPC), Bengaluru for further action on account of the reason(s) mentioned below.

Reason (s)						
As notice u/s 143(2) of the Income Tax Act, 1961 is issued by the Jurisdictional Assessing Officer(AO)						
Assessing Officer (AO) to whom transmitted						
E-mail of the AO	Area code	AO type code	Range code	AO number	Jurisdiction	Building name
HYDERABAD.ITO.EXMP2@INCOMET AX.GOV.IN	DLC	WX	44	2	EXEMPTION WARD 1(2), HYD	AAYAKAR BHAVAN, HYDERABAD

The reasons for transfer has also been communicated to the Assessing Officer mentioned above. Kindly ignore this communication if your return has already been processed or action has been taken by your jurisdictional Assessing Officer.

Digitally signed by NIRMALA
Date: 20170628024022
Reason: DIGITALLY SIGNED
Location: BANGALORE - CPC

Nirmala,

Deputy Commissioner of Income Tax, CPC

This communication is computer generated and may not contain signature. Where sent by email, this is signed with the digital signature of the Income Tax Department - CPC, which is obtained from a certifying authority under the Information Technology Act, 2000. For any queries, please quote the PAN, Communication Reference Number and call on the telephone number provided above.



17062464943000

ई- प्रोसेडिंग की मुख्य विशेषताएं
Salient features of 'E-Proceeding'

आयकर विभाग ने निर्धारण की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए ई- गर्वनेंस के हिस्से के तौर ई- प्रोसेडिंग की सुविधा शुरू की है। यह विभाग एवं निर्धारती के मध्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारण की कार्यवाही के लिए आयकर कार्यालय जाने की जरूरत के बिना आवश्यकता के संप्रेषण का सहज माध्यम है। यह करदाता की मैत्रीपूर्ण सुविधा निर्धारती के लिए अनुपालन की मुश्किलों को कम कर देगा।

As part of e-governance initiative to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has launched 'E-Proceeding' facility. It is a simple way of communication between the Department and assesses, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This taxpayer friendly measure would substantially reduce the compliance burden for the assessee.

- निर्धारण कार्यवाही में 'ई- प्रोसेडिंग' ई- फाइलिंग वेबसाइट में निर्धारण अधिकारी से संबंधित निर्धारती के एकाउंट में पत्र (ओं), प्रश्नावली (यों), आदेश (शो) आदि के बाधारहित प्रवाह को सुनिश्चित करेगी। विभागीय पत्राचार प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारती अपने संलग्नकों के साथ अपनी प्रतिक्रिया ई- फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। निर्धारती द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को निर्धारण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर बिजनेस एप्लीकेशन (आई टी बी ए) मॉड्यूल पर देखा जाएगा। इसके अलावा यह करदाता के बहुमूल्य समय की बचत करते हुए निर्धारण प्रक्रिया के दौरान विभागीय पूछताछ पर प्रतिक्रिया देने में भी यह 24x7 कभी भी/ कहीं भी मदद उपलब्ध कराएगा। जिन करदाताओं का अब तक आयकर विभाग की ई- फाइलिंग वेबसाइट पर एकाउंट नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे ई- फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर साधारण निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकृत कराएं।

In assessment proceeding, 'E-Proceeding' would enable seamless flow of Letter(s)/Notice(s), Questionnaire(s), Order(s) etc. from Assessing Officer to the concerned assessee's account in e-Filing website. On receipt of Departmental communication, assessee would be able to submit the response along with attachments by uploading the same, on e-Filing portal. The response submitted by the assessee would be viewed by the Assessing Officer electronically in Income Tax Business Application (ITBA) module. This would, besides saving precious time of the taxpayer, would also provide a 24X7 anytime/anywhere convenience to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings. The taxpayers, who are not yet having an account on the e-Filing website of the Income-tax Department, are requested to get registered by following simple instructions in the e-Filing website (www.incometaxindiaefiling.gov.in).

- निर्धारती अपने ई- फाइलिंग पोर्टल के एकाउंट पर निर्धारण प्रक्रिया की कार्यवाही के दौरान किए गए सभी ई- सबमिशन (प्रस्तुती) की सूचनाएं ई- प्रोसेडिंग की सुविधा द्वारा संदर्भ एवं रिकॉर्ड के उद्देश्य से सुरक्षित रख सकते हैं।
Assesses would retain complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings through 'E-Proceeding' facility for reference & record purpose in his e-Filing portal account
- निम्नांकित स्थितियों में सुनवाई/ दस्तावेजों का प्रेषण मैन्युअली किया जा सकता है।
 - I. जहां लेखा की मैन्युअल पुस्तकें या मूल दस्तावेजों की जांच की जानी हो।
 - II. जहां आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 के प्रावधानों को निर्धारण अधिकारी को लागू करना हों।
 - III. जहां संबंधित निर्धारती या विभाग द्वारा गवाह या साक्ष्य का परीक्षण आवश्यक हो।
 - IV. जहां किसी विरोधाभासी तथ्य पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और निर्धारती ने मामले की व्याख्या के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया हो।

Hearing/submission of document(s) may be conducted manually, if required, in following situation(s):

- I. where manual books of accounts or original documents have to be examined;
 - II. where Assessing Officer invokes provisions of section 131 of Income-tax Act, 1961;
 - III. where examination of witness is required to be made by the concerned assessee or the Department
 - IV. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter;
- निर्धारण कार्यवाहियों कागज के बिना होने के कारण यह पहल पर्यावरण के हित में है।

This initiative is environment friendly as assessment proceedings would become paperless.

